

नकली शराब बनाने वाले गिरोह का एसपी ने किया भंडाफोड़

BY स्वतंत्र प्रभात

JUN 20, 2019

Home | आपका शहर | रांची | नकली शराब बनाने वाले गिरोह का एसपी ने किया भंडाफोड़



कुशीनगर,उप्र।

अन्तर्राज्यीय अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, भारी मात्रा में कूटरचित (QR CODE) व ढक्कन के साथ 03 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार।

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री व निष्कर्षण और परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज गुरुवार को थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर ठाढ़ीभार झरही का नाला पुलिया के पास से तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

जिसमें उपयुक्त मारुति कार यूपी 83 जे 9302 के साथ अभियुक्तगण अविनाश जायसवाल पुत्र रमाशंकर जायसवाल सा0 ग्राम भिखमपुर रोड देवरिया मूल निवासी तमकुहीरोड/सीसी रोड थाना सेवरही कुशीनगर,उमाशंकर वर्मा पुत्र गया ठाकुर सा0 उधवपुर थाना गौरी बाजार देवरिया,राधेश्याम गुप्ता पुत्र छट्टू गुप्ता सा0 गौरी इब्राहिम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से देशी शराब के शीशी के ऊपर लगने वाले ढक्कन 4865 अदद व प्लास्टिक के पन्नी में रखा हुआ 485 अदद ढक्कन गहरा नीले रंग का तथा इसी पन्नी में रखा हुआ 998 अदद स्टीकर कूटरचित (QR CODE) आदि बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 140/19 धारा 419/420/467/468/472 आईपीसी बनाम अभियुक्त अविनाश जायसवाल आदि 03 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा बीते 14 जून को अवैध शराब की एक बड़ी खेप 840 पेटी क्रेजी रोमियो शराब लगभग 7000 लीटर से अधिक (कीमत लगभग 40 लाख रुपये से अधिक) की बरामदगी की गयी।इसके बाद 17 जून को थाना कसया पुलिस द्वारा 720 पेटी में लगभग 6000 लीटर से अधिक की क्रेजी रोमियो शराब (कीमत लगभग रुपये 40 लाख) बरामद करते हुए अवैध शस्त्र के साथ 02 शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

लगातार चल रही कार्यवाही में 18 जून को थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा ट्रक वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 350 पेटी में लगभग 3000 लीटर से अधिक की क्रेजी रोमियो शराब (कीमत लगभग रुपये 20 लाख) की शराब बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी थी। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्र द्वारा बताया गया कि जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री व निष्कर्षण और परिवहन के विरुद्ध यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।

Source: <https://swatantraprabhat.com/post/khushi-nagar-news-26302>